

## नराकास धनबाद को पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजेजू की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च, 2018 को पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन आडिटोरियम में आयोजित पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजभाषा कार्यान्वयन सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति धनबाद के अध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह, सीएमडी बीसीसीएल को माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा शील्ड प्रदान कर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नराकास के सचिव श्री दिलीप कुमार सिंह को भी मंत्री महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नराकास अध्यक्षीय कार्यालय के महाप्रबन्धक (राजभाषा) श्री राजपाल यादव के अतिरिक्त धनबाद के अन्य कई सदस्य कार्यालयों के अधिकारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार राजभाषा कार्यान्वयन एवं अन्य गतिविधियों के बेहतर निष्पादन के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित समिति के मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले उपक्रमों, बैंकों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों एवं नराकास को प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तकनीकी प्रस्तुतियाँ नवीनतम जानकारी के साथ उपलब्ध कराई गईं। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र में सर्वप्रथम बीसीसीएल के महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री राजपाल यादव ने अपनी कंपनी की राजभाषा एवं नराकास की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का ब्योरा देते हुए पुरस्कार एवं राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी दो महत्वपूर्ण सुझाव संयुक्त सचिव (राजभाषा), गृह मंत्रालय के समक्ष रखे, जिनका संतोषजनक निराकरण किया गया। नराकास धनबाद के अध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह ने इसका श्रेय अपनी अध्यक्षीय कार्यालय की टीम के अतिरिक्त सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों और उनके अधिकारियों व कर्मचारियों को देते हुआ कहा कि उनकी टीम में भविष्य में इससे भी बेहतर परिणाम देने की क्षमता है।

